

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी 2024 — पौष 26, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक 628/21-अ/स्थापना/छ.ग./2024.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य (चतुर्थ श्रेणी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2023 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.**— ये नियम, इन नियमों से यथा संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (13) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
 - “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - “राज्यपाल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

- (छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ज) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य विभाग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा;
- (झ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;
- (ञ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (12) में विनिर्दिष्ट समिति।
4. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, पदों में भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएँ एवं पदों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे:
- परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।
5. **आरक्षण.**— (1) सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा।
- (2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा।
- (3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार होगा।
6. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:
- परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।
7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, निःशक्त व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिये उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में, समय समय पर, बनाये गये नियमों या जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी।
8. **निरसन.**— इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किये जाते हैं:
- परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

अनुसूची

(नियम 2 एवं 4 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स लेवल	सीधी भर्ती या पदोन्नति या स्थानांतरण के माध्यम सहित विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये		परिचीक्षा या परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	पदोन्नति के मामले में अर्हकारी सेवा की अवधि	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिये चयन समिति	नियुक्ति प्राधिकारी
						आयु सीमा	आवश्यक शैक्षणिक अर्हता					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	दपतरी	04	चतुर्थ श्रेणी	पे मैट्रिक्स लेवल-2	100% पदोन्नति के माध्यम से	—	—	2 वर्ष	5 वर्ष	भृत्य	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अध्यक्ष एवं सदस्यों को नामांकित किया जायेगा	प्रमुख सचिव / सचिव, विधि
2.	भृत्य	25	—तदैव—	पे मैट्रिक्स लेवल-1	100% सीधी भर्ती	18-30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिये 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण	3 वर्ष	—	—	—तदैव—	—तदैव—

टीप— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2024

क्रमांक 628/21-अ/स्थापना/छ.ग./2024.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16-01-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

Atal Nagar, the 16th January 2024

NOTIFICATION

No. 628/XXI-A/Estt./C.G./2024.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs (Class-IV) Service, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department (Class-IV) Service Recruitment Rules, 2023.
(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule as appended to these rules.
3. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Appointing Authority” in respect of service means the authority as specified in column (13) of Schedule;
 - (b) “Government” means the Government of Chhattisgarh;
 - (c) “Governor” means the Governor of Chhattisgarh;
 - (d) “Other Backward Classes” means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
 - (e) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;
 - (f) “Scheduled Castes” means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
 - (g) “Scheduled Tribes” means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
 - (h) “Service” means the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department (Class-IV) Services;
 - (i) “State” means the State of Chhattisgarh;
 - (j) “Selection Committee” means a committee specified in column (12) of Schedule.
4. **Classification and scale of pay etc.-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other conditions of service relating to the posts shall be as specified in the Schedule appended to these rules:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

5. **Reservation.-** (1) Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).
- (2) Reservation in promotion for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003.
- (3) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
6. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules apply in such manner, as may appear to him to be just and proper:
- Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.
7. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-servicemen, Compassionate appointment to one member of the family of the Government employees who dies during service period, persons with disability and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.
8. **Repeal.-** All rules, corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:
- Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
UMESH KUMAR KATIYA, Additional Secretary.

SCHEDULE
(See rule 2 and 4)

S. No.	Name of the post	Number of duty posts	Classification	Pay Matrix Level	Percentage of the number of duty posts to be filled by various methods including direct recruitment or promotion or transfer	Only for direct recruitment		Period of probation or trial, if any	Qualifying period of services in case of promotions	Posts from which the promotion is to be made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Appointing Authority
						Age limit	Necessary Education Qualification					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Daftari	04	Class- IV	Pay Matrix Level-2	100% through promotions	--	--	2 years	5 years	Peon	The Chairman and Members shall be nominated by the Appointing Authority from time to time.	Principal Secretary/ Secretary, Law
2.	Peon	25	--do--	Pay Matrix Level-1	100% through Direct Recruitment	18-30 years (35 years for local resident of State of Chhattisgarh)	Should have passed 8th class examination from any recognized Board.	3 years	--	--	--do--	--do--

Note— The upper age limit shall be relaxable for such candidates who are Local resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.